

3. Write a short note on ANY TWO :

- (a) Short Term Capital Gain
- (b) Property Insurance
- (c) Kisan Vikas Patra
- (d) FPO

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (क) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ
- (ख) संपत्ति बीमा
- (ग) किसान विकास पत्र
- (घ) एफपीओ

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3872 I

Unique Paper Code : 2416000002 and 2416001002

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : **Common Prog Group (UGCF)**

Semester : III

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. All questions carry equal marks.
3. Attempt all questions.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. सभी प्रश्नों के उत्तर दें।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) "A budget aligns financial resources and activities with the strategic goals and objectives." State the importance and process of preparing budgets.

OR

- (b) What do you understand by the term "Dematerialization"? How have DEMAT accounts eased the process of holding and trading shares?

- (क) "बजट वित्तीय संसाधनों और गतिविधियों को रणनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ जोड़ता है।" बजट तैयार करने की महत्ता और प्रक्रिया बताइए।

या

- (ख) "डीमटेरियलाइजेशन" शब्द से आप क्या समझते हैं? डीमैट खातों ने शेयरों को रखने और उनका व्यापार करने की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया है?

2. (a) "Life insurance has become an inevitable need in our lives nowadays." Do you agree? Why do you think it is important to take a life insurance policy? What are the different types of life insurance available in India?

OR

- (b) "A mortgage is critically important part of home loans." In light of the above statement, explain the meaning and importance of mortgage. Distinguish between Hypothecation, mortgage, and pledge.

- (क) "जीवन बीमा आजकल हमारे जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है।" क्या आप सहमत हैं? आपको क्यों लगता है कि जीवन बीमा पणलिसी लेना महत्वपूर्ण है? भारत में उपलब्ध जीवन बीमा के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

या

- (क) "बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।" उपरोक्त कथन के आलोक में, बंधक का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। दृष्टिबंधक, बंधक और गिरवी के बीच अंतर बताइए।